

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 11 | अंक : 71 | गुवाहाटी | मंगलवार, 8 अक्टूबर, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

वायु सेना का एयर शो देखना पांच परिवार के लिए बना काल... एक साथ जली चिताएं **पेज 2**मुख्यमंत्री ने 385 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र **पेज 3**देश का समुचित विकास करना है तो लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ना... **पेज 5**हमारे बल्लेबाजों को नहीं पता कि 180 रन कैसे बनाएं: नजमूल हुसैन शांतो **पेज 7**

आरजी कर के विरोध से लेकर गैंडे के संरक्षण तक

राज्य के दुर्गा पूजा पंडालों में विविध थीम प्रदर्शित

गुवाहाटी। बिहू के बाद असम में दुर्गा पूजा निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्यौहारों में से एक है। जहां सभी पंडालों में राक्षस राजा महिषासुर पर उनकी जीत के उपलक्ष्य में देवी मां की पूजा की जाती है, वहीं दुर्गा पूजा समितियों के आयोजक भी सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल एक अनूठी थीम के साथ अपने पंडालों को रोशन करते नजर आते हैं। इस बार असम में दुर्गा पूजा स्थलों पर कई तरह की थीम रखी गई हैं। कुछ पूजा पंडालों ने कोलकाता के कुख्यात

आरजी कर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या की घटना को दर्शाते हुए महिलाओं में असुरक्षा के मुद्दे को उठाया है, तो कुछ पंडालों ने असमिया साहित्य की प्रमुख पुस्तकों के बारे में जागरूकता पैदा की है। कुछ पूजा पंडालों में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर थीम बन गए हैं, तो कुछ पूजा आयोजकों ने एक सींग वाले गैंडे के बारे में जागरूकता के मुद्दे पर अपने पंडालों को रोशन किया है। नगांव के




एक पंडाल ने असम की एकमात्र ओलंपिक अथॉरिटी डॉक्टरों - अमरुक्षा को उजागर किया, बल्कि रक्षकों - को बचाने की महती

के माध्यम से युवाओं को मुक्केबाजी जैसे खेलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। गुवाहाटी के छत्रीबाड़ी देवपूजास्थान ने अपने पंडाल का थीम कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल के कुख्यात बलात्कार और हत्या मामले पर आधारित रखा और न केवल देश में महिलाओं को डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सुरक्षित

आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। छत्रीबाड़ी का पंडाल आरजी कर अस्पताल के दौरान विरोध प्रदर्शनों के बारे में चित्रों से भरा हुआ है, जहां रक्षकों को बचाओ शीर्षक वाली तस्वीरें देखी जा सकती हैं। पंडालों में थीम को समर्थन देने के लिए ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन इकाइयों के डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा उपकरणों की प्रतिकृतियां भी हैं। छत्रीबाड़ी में पूजा समिति के बाबुल राजबोंगशी ने कहा कि हम यह संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सुरक्षित

मैं बिल्कुल ठीक गलत सूचना न फैलाएं: रतन टाटा



नई दिल्ली। उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि उन्हें ब्लड प्रेशर गिरने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब रतन टाटा ने इसका खंडन किया है। रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में फैल रही अफवाहों से अवगत हूँ। मैं सभी को आश्चर्य करना चाहता हूँ कि ये दावे निराधार हैं। मैं फिलहाल अपनी उम्र और सेहत संबंधी जरूरी चिकित्सा जांच करवा रहा हूँ। चिंता का कोई बात नहीं है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि जनता और मीडिया गलत सूचना फैलाने से बचें। बता दें रतन नवल टाटा एक प्रमुख भारतीय व्यापारी, निवेशक और दानवीर हैं। वह टाटा संस के **-शेष पृष्ठ दो पर**

मुख्यमंत्री ने मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, कृषि मशीनरी का किया वितरण धान को खरीद केंद्रों तक लाने के लिए सरकार देगी सब्सिडी : सीएम



गुवाहाटी (हि.स.)। राज्य में कृषि के विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज राज्य भर के किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) के वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने आज यहां श्रीमंत शंकरदेव

कलाक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मशीनरी वितरित करने और कृषि ज्ञान केंद्रों के उद्घाटन की प्रक्रिया भी शुरू की। इस अवसर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसानों

के सशक्तिकरण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के वितरण का विस्तार करने से लेकर किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने तक, सरकार राज्य के किसानों के सर्वांगीण कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में देश का नेतृत्व किया था। उन्हें प्रेरणा के रूप में लेते हुए, असम सरकार ने राज्य में 10 लाख एसएचसी जारी करने का लक्ष्य रखा है। चार लाख एसएचसी इसी बीच तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कृषि मिट्टी की उपयुक्तता को जांच करने के लिए राज्य में प्रयोगशालाओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 22 कर दी गई है। यह कहते हुए कि केंद्र सरकार ने विशेष रूप से कृषि मशीनीकरण में राज्य सरकार को पहल को स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य भर में 816 ग्राम स्तरीय कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। **-शेष पृष्ठ दो पर**

जल जीवन मिशन के बंद होने पर उठे सवाल, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

गुवाहाटी। जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लेकर असम की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। असम सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी गतिविधियों को निलंबित करने का फैसला किया है। सरकार ने इसकी वजह का भी खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह गुणवत्ता नियंत्रण में बड़ी चूक और परियोजना की समयसीमा में देरी है। लेकिन असम सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश की कांग्रेस ईकाई ने सरकार के कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने परियोजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। **-शेष पृष्ठ दो पर**



गुवाहाटी विवि के छात्रावासों में हिंसा पर सीएम ने कहा- छात्रावास सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं



गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों की पवित्रता बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि माता-पिता और अभिभावक अपने

बच्चों को सरकारी छात्रावासों में सुरक्षित स्थान पर छोड़ते हैं, इस विश्वास के साथ कि वहां कोई गलत काम नहीं होगा। मैं सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध करता हूँ कि वे माता-पिता और अभिभावकों द्वारा हम पर और इन संस्थानों पर रखे गए विश्वास को बनाए रखें। शर्मा की यह टिप्पणी सोमवार को गुवाहाटी विश्वविद्यालय (जीयू) के रजिस्ट्रार द्वारा विश्वविद्यालय के आरसीसी वन और आरसीसी टूलडकों के छात्रावासों के संबंध में जारी की गई अधिसूचना के बाद आई है। 26 सितंबर को पोस्ट **-शेष पृष्ठ दो पर**

त्रिपुरा : सांप्रदायिक संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल

अगरतला (हि.स.)। उत्तरी त्रिपुरा जिले के कदमतला में दुर्गा पूजा के चंदे को लेकर हुए हिंसक सांप्रदायिक संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई और सुरक्षाकर्मियों समेत कई अन्य घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। 6 अक्टूबर को उस समय हुई, जब कदमतला में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का एक परिवार इलाज के लिए असम जा रहा था। **-शेष पृष्ठ दो पर**



को लेकर पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बतायी जा रही है। राज्य सरकार ने दो धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार यह घटना 5 अक्टूबर को हुआ था।

बीरभूम कोयला खदान में विस्फोट, सात मजदूरों की मौत

कोलकाता। पश्चिम



बंगाल के बीरभूम जिले में सोमवार को एक कोयला खदान में विस्फोट हो गया। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) ने कहा कि उसकी खदान में विस्फोट के कारण पांच लोगों की मौत हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे भद्रुलिया ब्लॉक की एक कोयला खदान

में हुआ। **-शेष पृष्ठ दो पर**

नक्सली मानवाधिकार के सबसे बड़े दुश्मन : शाह

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नक्सली मानवाधिकार के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता हैं, मानवाधिकार के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ रक्षात्मक के बजाय आक्रामक अभियान चला रहे हैं और हाल के दिनों में उन्हें बड़ी सफलताएं मिली हैं। अमित शाह ने नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में बेहतर केंद्र-राज्य सम्बन्ध **-शेष पृष्ठ दो पर**

हिन्दू उत्सवों व धार्मिक आयोजनों में विघ्न डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : विहिप

नई दिल्ली (हि.स.)। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने सोमवार को कहा कि हिन्दू पर्व-त्यौहारों या कुम्भ जैसे महान आयोजनों की शुचिता और पवित्रता बरकरार रख, पूज्य संतों व मातृ शक्ति के सम्मान की रक्षा हेतु सम्पूर्ण हिन्दू समाज कृत संकल्पित है। इन आयोजनों में विघ्न डालने वालों के विरुद्ध शासन-प्रशासन व समाज को सतर्क रहना होगा। इन उत्सवों व धार्मिक आयोजनों को अपवित्र करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संपूर्ण देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने



कहा कि मां दुर्गा से प्रार्थना है कि वे हमें वह शक्ति प्रदान करें जिससे हम राष्ट्र विरोधियों और हिंदू विरोधियों के षडयंत्रों को समाप्त कर भारत

को विश्व का शीर्षस्थ देश बनाने का अपना संकल्प पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की विशेषता है कि उसके उत्सव विभिन्न रंगों की छटाओं से भरे होते हैं। डॉ. जैन नृत्य मां दुर्गा की आराधना का ही एक अनूठा आयोजन है। यह पूर्ण रूप से धार्मिक आयोजन है जिसमें वही भाग लेता है जो मां दुर्गा के प्रति समर्पित है। दुर्भाग्य से विकृत मानसिकता से ग्रस्त जेहादियों ने अपने गैरे इरादों के साथ डॉ. जैन पंडालों में घुसना प्रारंभ कर दिया है। कल ही भाग्यनगर (हैदराबाद) के डॉ. जैन पंडाल में एक जिहादी इरशाद **-शेष पृष्ठ दो पर**

क्या कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे रिश्वत मांग रहा है ?

कृपया हमें सूचित करें

व्हाट्सएप नंबर ▶ 60269 01243

टोल फ्री नंबर ▶ 18003453767

नियंत्रण कक्ष ▶ 03612462295

एस. पी (I) ▶ 6026903418

एस. पी (IV) ▶ 6026903483

एस. पी (LAW) ▶ 6026903481

ईमेल ▶ complaints.vac@gmail.com

ट्विटर ▶ @DIR_VAC_ASSAM

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, असम गुवाहाटी ७८१०३२

https://dgvigilance.assam.gov.in/

-Janasanyog/DT71/24/8-Oct-24

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc.

ARTCLE WORLD, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952

नगांव में हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

नगांव (हिस)। नगांव पुलिस ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि एसआई विभूति थापा के नेतृत्व में कामपु थानाक्षेत्र से नगांव पुलिस की टीम ने संदिग्ध हेरोइन से भरे 10 प्लास्टिक कंटेनर बरामद किए, जिनका वजन 13.57 ग्राम है। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। इस मिलविले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

दो तस्करों को जनता ने ड्रग्स के साथ पकड़ा

बरेपेटा (हिस)। बरेपेटा जिले के गैरमारी में मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि पकड़े गए नशा तस्करों की पहचान लघु बामुनबाड़ी गांव के शफीकुल इस्लाम (20) और गरिया सतला के सबदुल अली (28) के रूप में हुई है। सूचना पत्रक माजदिया और सथेवारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तस्करों के पास से मादक पदार्थों के साथ ही तस्करों की बाइक (एसएस-14 आर-9890) जब्त कर ली।

वायु सेना का एयर शो देखना पांच परिवार के लिए बना काल.. एक साथ जली चिताएं



चेन्नई। चेन्नई के मरीना बीच पर रविवार को भारतीय वायु सेना के 92वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान देश की हवाई क्षमता को करीब से देखने का उत्साह पांच परिवारों के लिए दुखद साबित हुआ। उन्हें इस बात का जरा भी अहसास नहीं था कि रेतीले समुद्र तट से कुछ दूरी तक पैदल चलकर सड़क पर खड़े अपने दोपहिया वाहनों तक पहुंचने की कोशिश उनकी जिंदगी ले लेगा। दरअसल, मरीना तट पर रविवार को आयोजित *एयर शो* आकर्षण का केंद्र था लेकिन इसे देखने के लिए एकत्र हुए हजारों लोगों को कार्यक्रम के बाद पर लौटने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने बताया कि इस दौरान पांच लोग बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। यहां के थिक्वॉलित्पूर निवासी 34 वर्षीय कार्तिकेयन की पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने मुझे हमारे ढाई साल के बच्चे के साथ समुद्र तट के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि जहां हम लगभग डेढ़ घंटे तक रुके और एयर शो देखा। समुद्र तट पर भारी भीड़ को देखकर, परिवार ने आयोजन स्थल के नजदीक न जाने का निर्णय लिया तथा दूर से ही वायुसेना के हवाई करतबों को देखा। महिला के मुताबिक, दोपहर डेढ़ बजे उनके पति ने कहा कि वह दस मिनट में अपनी बाइक लेकर हमें लेने आ जाएंगे। लेकिन

दो घंटे बाद भी वह नहीं लौटे और उनके मोबाइल फोन पर लगातार घंटी बजती रही। महिला ने बताया कि दोपहर 3.30 बजे किसी ने फोन करके बताया कि उनके पति को उल्टी हो गई है और वह अपनी बाइक के पास लेटे हुए हैं। एक पुलिसकर्मी की मदद से वह नैपियर ब्रिज तक गई, तो देखा कि उनके पति बेसुध पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर नैपियर पुल के पास कोई पुलिसकर्मी होता तो उनके पति को बचाया जा सकता था। महिला ने कहा कि पास ही सड़क पर एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह

गर्मी से हुई मौतें : स्वास्थ्य मंत्री

चेन्नई (हिस.) तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने एयरफोर्स एयरशो हादसे पर अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना के लिए पाकिस्तानी अमेरिकी और अब यूएससीआईआरएफ के आयुक्त आसिफ महमूद की तारीफ करते हुए देखा गया। महमूद को पाकिस्तान की सरकार तथा भारत के आलोचक माने जाने वाले नेताओं से गहरे संबंधों के लिए पहचाना जाता है। संज्ञा ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि इस साल नवंबर में कमला हैरिस पाकिस्तान की पसंदीदा उम्मीदवार है। भारतीय-अमेरिकियों, हम बेहतर कर सकते हैं। यह रिश्ता हैरिस प्रशासन के खासतौर से कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों में सभावित रुख को लेकर चिंताएं पैदा करता है।

पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। भारतीय वायुसेना की ओर से मांगी गई सभी सुविधाएं और व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने प्रदान की थी। सभी मौतें गर्मी के कारण हुई हैं। वहां अनुरोध से कहीं अधिक व्यवस्थाएं की थीं। परामेडिकल टीम में भी तैनात थी। भारतीय वायुसेना ने सरकारी अस्पताल में 100 बेड तैयार रखने को कहा था।

हिंदू समूह ने हैरिस के पाकिस्तानी-अमेरिकी नागरिक से संबंधों को लेकर उठाए सवाल

वाशिगटन। अमेरिका (यूएस) में एक हिंदू राजनीतिक समूह ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के यूएस कर्मिशन फॉर इंटरनेशनल रिलिजीयस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) के पाकिस्तानी-अमेरिकी सदस्य से संबंधों पर सवाल उठाए और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनके प्रशासन के रुख को लेकर चिंता व्यक्त की है। हिंदू फॉर अमेरिका फस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष उत्सव संज्ञा ने यूएससीआईआरएफ की पिछले सप्ताह जारी एक रिपोर्ट के बाद यह टिप्पणी की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां 2024 में भी बदतर रहीं, खासतौर से देश के आम चुनावों से पहले और तुरंत बाद के महीनों में।

भारत ने इस रिपोर्ट को *दुर्भावनापूर्ण* बताया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक संज्ञा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उनके प्रचार अभियान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकी और अब यूएससीआईआरएफ के आयुक्त आसिफ महमूद की तारीफ करते हुए देखा गया। महमूद को पाकिस्तान की सरकार तथा भारत के आलोचक माने जाने वाले नेताओं से गहरे संबंधों के लिए पहचाना जाता है। संज्ञा ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि इस साल नवंबर में कमला हैरिस पाकिस्तान की पसंदीदा उम्मीदवार है। भारतीय-अमेरिकियों, हम बेहतर कर सकते हैं। यह रिश्ता हैरिस प्रशासन के खासतौर से कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों में सभावित रुख को लेकर चिंताएं पैदा करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती गाड़ी में लगी आग

धुबड़ी (हिस)। धुबड़ी-बगाईगांव जिले की सीमा पर स्थित नित्यबाजार इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चलती कार में आग लग गई। पुलिस ने आज बताया कि इस घटना से चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन अबतक चार पहिया वाहन टाटा विस्टा (एसएस-16बी-6909) कार जलकर राख हो चुकी थी। सौभाग्यवश वाहन का चालक समय पर कार से उतरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लोगों को संदेह है कि अचानक यात्रिक खराबी के कारण हुई होगी।

अकोला में दो गुटों में मारपीट के बाद पथराव, कई वाहन जलाए गए

मुंबई (हिस.) आकोला जिले के हरिपेट इलाके में सोमवार करीब चार बजे दो वाहनों की टक्कर के बाद दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसके बाद दोनों गुटों ने पथराव शुरू कर दिया और कई वाहनों में आग लगा दी। स्थिति को अनियंत्रित होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे यहां दोनों गुट शांत हुए। खबर लिखे जाने तक यहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, क्षेत्र में फिलहाल तनाव पूर्ण शांति है। पुलिस के अनुसार हरिपेट इलाके में आज शाम करीब 4 बजे एक रिक्शा और एक मोटरसाईकिल की टक्कर हो गई। इस घटना के बाद दोनों चालकों में शुरू में हुआ वाद-विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। दोनों तरफ से जमकर मारपीट होने लगी और पथराव किया जाने लगा। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हिंसा को रोकने

का प्रयास किया, लेकिन दोनों गुटों ने पुलिस पर भी पथराव करना शुरू कर दिया और कई वाहन जला दिए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना में दोनों चालक सहित कई नागरिक जखमी बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस का अतिरिक्त बंदोबस्त रखा गया है। मामले की छानबीन जारी है। अजित पवार के गुट के नेता और विधायक अमोल मिटकरी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे अभी तक इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि रिक्शा को किसी दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद इन दोनों के बीच बहस हो गई और ये बड़ी घटना हो गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अमोल मिटकरी ने मामले की गहन छानबीन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पृष्ठ एक का शेष

राज्य के दुर्गा पूजा...

रहने की आवश्यकता है क्योंकि वे रक्षक हैं। आयोजकों ने कहा कि इस बार सजावट के लिए उनका बजट 10 लाख रुपए है। गुवाहाटी के मालीगांव इलाके में स्थित क्लब दुर्गा पूजा के लिए अपनी सजावट और अनूठी थीम के कारण सदियों से जाने जाते हैं। समृद्ध परंपरा को ध्यान में रखते हुए मालीगांव के आजाद हिंद क्लब ने इस साल मकाऊ के 47 मॉजिलों वाले और 261 मीटर ऊंचे होलल ग्रांड लिक्सोआ की प्रतिकृति का चयन किया है। मूल ग्रांड लिक्सोआ की तरह, आजाद हिंद क्लब के पूजा स्थल पर भी प्रतिकृति किए गए हैं और आयोजकों ने कहा कि इस बार उनका बजट 30 लाख रुपए है। पूजा समिति के सचिव विश्वस ने कहा कि यह पहली बार है कि गुवाहाटी में कोई पंडाल पूरी तरह से कांच से बना है। दूसरी ओर, गुवाहाटी के उदालबाक्रा इलाके में पूजा समिति ने असम के एक सींग वाले गैंडों को प्रभावित की। उदालबाक्रा में पूजा पंडाल *काजोरिंगा की बचाने के लिए गैंडे बचाओ* की थीम पर प्रकाश डालता है क्योंकि असम में एक सींग वाले गैंडों को अवैध शिकार के कारण गंभीर खतरों का सामना करना पड़ा था। मालीगांव में कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति ने अरमिया और बंगाली साहित्य के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के इर्द-गिर्द अपने पूजा पंडाल की थीम बनाई है। सजावट मुख्य रूप से अरमिया और बांग्ला वर्णमाला के चित्रण पर केंद्रित थी। आयोजकों ने नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर और लक्ष्मीनाथ बेजबरका जैसे दोनों भाषाओं के प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों की प्रतिकृतियां भी लगाईं। टैगोर द्वारा लिखी गई *नौकाडुबी गीतांगलि* और *सहज पथ* जैसी पुस्तकों की प्रतिकृतियां देखी जा सकती हैं। दूसरी ओर लक्ष्मीनाथ बेजबरका द्वारा लिखी गई *बूढ़ी आयर साधु, पदुम कुमारी और कोकटेटा अरु नाती लोरा* जैसी पुस्तकें दर्शकों और आगंतुकों के लिए कतार में रखी गई हैं। दूसरी ओर, नगांव के रंथली में डुगडुगु दुर्गा पूजा समिति ने एक ऐसी थीम रखने का फैसला किया है जो राज्य के युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सके। हम लवलीना बुरगौह, नीरज चोपड़ा और अन्य ओलंपिक सितारों की आदमकद तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन्होंने ओलंपिक से राज्य और देश के लिए पदक जीते हैं। पूजा के आयोजक उत्पल बनिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे राज्य के युवाओं को अपने करियर के रूप में और अधिक खेलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

में बिल्कुल ठीक ...

पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और टाटा समूह के प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें भारत के दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों, पद्म विभूषण (2008) और पद्म भूषण (2000) से सम्मानित किया गया है। उनकी शिक्षा की बात करें तो वह प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कानोन स्कूल, बिशप कॉन्वेंट स्कूल (शिमला), कार्नल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।

धान को खरीद ...

उन्होंने यह भी कहा कि इन कृषि मशीनों बैंकों की स्थापना के लिए केंद्र ने 95 प्रतिशत सब्सिडी दी है। उन्होंने कि 96 कृषि ज्ञान बैंकों के साथ-साथ राज्य भर में कृषि विकास अधिकारी के 93 कार्यालयों का उद्घाटन करने के लिए एपार्ट योजना के तहत कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायात्मक समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के सरकार के फैसले से कृषि क्षेत्र में आशावाद पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी चूँकि धान खरीद केंद्र गांवों से दूर होते हैं, इसलिए किसानों को धान लाने में अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार किसानों को खरीद केंद्रों तक धान लाने के लिए हर किंवदंत के हिसाब से सब्सिडी देगी। इससे किसानों की परिवहन लागत को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उद्योग के लिए मक्का और गेहूँ की आवश्यकता काफी बढ़ गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस के साथ मिलकर राज्य में जैव ईंधन का उत्पादन करने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने राज्य में कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषि मंत्री अतुल बोरा को भी भयंस्वाद दिया, जो उनके अनुसार आत्मनिर्भर असम के लक्ष्य में योगदान दे रहा है। उन्होंने इस अवसर पर

राज्य के किसानों के प्रति भी आभार व्यक्त किया कि वे आत्मनिर्भर असम के सूत्रधार हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री अतुल बोरा, मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा, असम बीज निगम के अध्यक्ष प्रवीण हजारीका, प्रमुख सचिव राजस्व जीडी त्रिपाठी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशन ...

उन्होंने आरोप लगाया है कि इस प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इसी के साथ परियोजना की गतिविधियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। एपीसीसी अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जल जीवन मिशन में व्यवधान को लेकर गंभीर चिंता जताई। जेजेएम केंद्र सरकार की एक अहम पहल है। इस मिशन का मकसद 2024 तक ग्रामीण इलाकों के हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। लेकिन असम में कांग्रेस के भूपेन बोरा ने आरोप लगाया है कि इस मिशन को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इसे लागू करने में राज्य सरकार विफल रही। भूपेन बोरा ने इसको लेकर असम सरकार पर निशाना साधा और परियोजना को ठीक से न चलाने का आरोप लगाया। भूपेन बोरा ने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना में शामिल टेकेदार एकल ग्राम योजनाओं के लिए छह महीने की समयसीमा को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने जल जीवन मिशन में देरी के पीछे खराब निगरानी और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं असम सरकार के सचिव और जेजेएम के मिशन निदेशक कैलाश कार्तिक एन ने मिशन को फिलहाल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इससे मिशन के प्रबंधन को लेकर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं। विरोधी दल को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। हालांकि राज्य सरकार ने साफ किया है कि वह परियोजनाएं पहले पूरी हो चुकी हैं, वे सुचारु रूप से चलती रहेंगी। केवल उच्च योजनाओं को निलंबित किया गया है, जो अधूरी हैं या जिनको समय के भीतर पूरा नहीं किया गया।

छात्रावास सुरक्षा पर ...

ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यूनियन (पीजीएसयू) के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद छात्रावासियों के बीच हिंसा भड़कने के बाद इन छात्रावासों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। शर्मा ने प्रेस को बताया कि घेराव, धरना या नारेबाजी होने पर कोई नौकरियां नहीं है। हालांकि, छात्रावासों के माहौल में कोई समझौता नहीं होना चाहिए - उन्हें पढ़ाई के अनुकूल रहना चाहिए। उन्होंने पूर्व छात्रावासियों के रात में छात्रावास में आने पर भी चिंता व्यक्त की और इसे अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व छात्रावासियों को छात्रावास में नहीं आना चाहिए, मेष में उनका नहीं खाना चाहिए या छात्रावास परिसर में समय नहीं बिताना चाहिए, जब तक कि कोई कार्यक्रम न हो। किसी भी परिस्थिति में पूर्व छात्रावासियों को रात में छात्रावास परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले दिन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक अधिसूचना के माध्यम से, पूजा को छुट्टियों के बाद छात्रों को आरसीसी वन और आरसीसी टू में लौटने की अनुमति दे दी थी। रविवार शाम को पीजीएसयू के साथ चर्चा के बाद प्रशासन ने छात्रावासों में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने की भी घोषणा की, साथ ही सामान रखने की व्यवस्था भी कर दी गई। कुलपति ने पुष्टि की कि छात्रावासों के नाम अपरिवर्तित रहेंगे तथा हाल ही में चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि 27-28 सितंबर की रात को हुई अग्रिय घटना के लिए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि बोर्डर्स द्वारा चर्चा और अनुरोध किया गया है। कल से शुरू होने वाली पूजा छुट्टियों के दौरान सभी छात्रावास बंद रहेंगे।

त्रिपुरा : सांप्रदायिक संघर्ष ...

रास्ते में उन्हें एक दुर्गा आयोजक द्वारा रोककर कथित तौर पर उनसे चंदे की मांग की गई। इस दौरान उन लोगों में तीखी बहस के बाद हाथापाई हो गई। इस टकराव के बाद मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने पूजा आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए स्थानीय थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

गया। स्थिति तब और बिगड़ गई, जब उपद्रवियों ने स्थानीय बिजार पर हमला कर दिया और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे तनाव और बढ़ गया। उपद्रवियों ने कई दुकानों में लूटपाट की और कुछ घरों पर भी हमला किया। आखिरकार, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा बीएसएफ अधिनियम की धारा 163 लागू की गई। पूरे इलाके में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और त्रिपुरा स्टेट राइफलस (टीएसआर) के 300 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है, जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सुरक्षा बल किसी भी उत्पन्न होने वाली अग्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉ मानिक शहा ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

बीरभूम कोयला खदान...

में हुई। अभी तक हमने छह शव बरामद किए हैं। बचाव अभियान जारी है। डब्ल्यूबीपीडीसीएल के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ, जब गंगारामचक और गंगारामचक-भट्टुलिया कोयला खदानों में विस्फोट करने के लिए डेटोनेटर ले जाए जा रहे थे। घटनास्थल का दौरा करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं स्थानीय विधायक अनूप साहा ने कहा कि कम से कम पांच लोगों की मौत हुई है और तीन अन्य घायल हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। विस्फोटक सामग्री को पर्याप्त सावधानी बरते बिना ट्रक से उतारा गया था। डब्ल्यूबीपीडीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीबी सलीम ने कहा कि घटना कोयला ब्लॉक के *डॉप यार्ड* में हुई। विस्फोट के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। विस्फोट में मारे गए लोग खदान का संचालन कर रही एजेंसी के कर्मचारी थे। हम प्रभावित श्रमिकों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य बलों कंपनी डब्ल्यूबीपीडीसीएल के पास पांच बिजली संयंत्र हैं और इनकी स्थापित क्षमता 4,265 मेगावाट है। चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 660 मेगावाट तापीय क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार पंत ने कहा कि छह शव बरामद कर लिए गए हैं। एक युवक कानोज घायल है, उसकी हालत काफी गंभीर है। जबकि दो घायलों की हालत खतरे से बाहर है। मृतकों के परिवार को 30 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को दो लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरियां भी दी जाएंगी। वहीं बोलपुर के एसीपी राना मुखर्जी ने कहा कि खदान में विस्फोट हो चुका है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छह शव बरामद कर लिए गए हैं। तीन मजदूर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके परिवार को नौकरि देने का एलान किया है। कंपनी भी उनको मुआवजा देगी। फॉरेंसिक टीम विस्फोट के पीछे के कारणों की जांच कर रही है।

हिन्दू उत्सवों व धार्मिक ...

खान ने एक हिंदू लड़की का हाथ पड़कर अश्लील हरकत करने की कोशिश की। परिवार का विरोध करने पर वह वहां से भाग गया लेकिन परिवार जनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। डॉ जैन ने आगे कहा कि कामुकता से भरे इन जेहादियों की कई प्रकार की गंदी हरकतों के समाचार मिलते रहते हैं। कभी किसी हिंदू लड़की को छेड़ना तो कभी उनको रोकने पर लड़की पर तेजाब डाल देना कहां की सभ्यता है। पत्थर बाजी के समाचार भी मिलते रहते हैं। हमारी पूजा सामग्री व प्रसाद को भ्रष्ट करने के यह लोग हमेशा प्रयास करते ही हैं। इनकी पार्श्विक कामवासान, जिसको लव जिहाद का नाम दिया गया है, से पूरी दुनिया त्रस्त है। ऐसे में अगर विहिप ,बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता दुर्गा पूजा के पंडालों में जेहादियों के आने पर रोक लगाते हैं तो क्या गलत करते हैं? क्या हम अपनी आस्था और बहन बेटी के शील और स्वाभिमान को बचाने की अधिकार नहीं रखते? दुर्घटना की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हम जानते हैं कि सावधानी में ही बचाव है। उन्होंने बचाव या सुरक्षा के इस पुनीत कार्य में लगे हिन्दू युवकों को *हिंदू धर्म रक्षक* बताते हुए कहा कि इनका सम्मान होना चाहिए। दुर्भाग्य से सेकुलरिज्म से ग्रस्त कुछ लोग उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी थूक जिहाद, जूस में पेशाब मिलाने वाले, हिंदू उत्सवों पर पथराव करने वालों व हिंदू लड़कियों

अरुणाचल में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत के दौरे से चीन को कड़ा संदेश

नई दिल्ली। भले ही अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना अधिकार जमाता है, लेकिन दुनिया इससे भारत का अभिन्न हिस्सा के रूप में ही देखती है। रविवार को भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सीएम प्रेमा खांडू से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई राजदूत ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में लैंड हुआ हूं। यह 18वां भारतीय राज्य है, जिसका मैंने अपने कार्यकाल के दौरान दौरा किया है। यहां सीखने और यह देखने के लिए आया हूं कि हम कैसे संबंधों को और गहरा कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू के साथ नए रिश्ते से परिचय भी हुआ। मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के अरुणाचल दौरे पर चीन प्रतिक्रिया दे सकता है। बता दें कि चीन की नापाक चाल पर लगाम लगाने के लिए बने क्वाड समूह का ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों पहले जब भारतीय पवतारहियों ने अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वत का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखा तो चीन आग बबूला हो उठा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स (एनआईएमएस) की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक अनाम चोटी पर चढ़ाई की थी और इसे छठे दलाई लामा त्संग्यांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला लिया। एनआईएमएस रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है।

अलग-अलग अभियानों में 4.5 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद

गुवाहाटी (हिस)। इस्रार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आज दो सफल एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन किए गए। दोनों अभियानों में 4.5 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. हिमत विश्व शर्मा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कार्बी आंलांग पुलिस ने दो तस्करों को पकड़ा और तीन करोड़ रुपए मूल्य की 1.5 किलोग्राम अवैध इस्रस जब्त की। वहीं, एक अन्य अभियान में विश्वनाथ पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर एक वाहन को रोका और 1.57 करोड़ रुपए मूल्य की 314 किलोग्राम गांजा जब्त करने में सफल रही। पुलिस कार्रवाई की आशंका से चालक मौके से फरार हो गया।

अकोला में दो गुटों में मारपीट के बाद पथराव, कई वाहन जलाए गए

मुंबई (हिस.) आकोला जिले के हरिपेट इलाके में सोमवार करीब चार बजे दो वाहनों की टक्कर के बाद दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसके बाद दोनों गुटों ने पथराव शुरू कर दिया और कई वाहनों में आग लगा दी। स्थिति को अनियंत्रित होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे यहां दोनों गुट शांत हुए। खबर लिखे जाने तक यहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, क्षेत्र में फिलहाल तनाव पूर्ण शांति है। पुलिस के अनुसार हरिपेट इलाके में आज शाम करीब 4 बजे एक रिक्शा और एक मोटरसाईकिल की टक्कर हो गई। इस घटना के बाद दोनों चालकों में शुरू में हुआ वाद-विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। दोनों तरफ से जमकर मारपीट होने लगी और पथराव किया जाने लगा। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हिंसा को रोकने

का प्रयास किया, लेकिन दोनों गुटों ने पुलिस पर भी पथराव करना शुरू कर दिया और कई वाहन जला दिए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना में दोनों चालक सहित कई नागरिक जखमी बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस का अतिरिक्त बंदोबस्त रखा गया है। मामले की छानबीन जारी है। अजित पवार के गुट के नेता और विधायक अमोल मिटकरी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे अभी तक इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि रिक्शा को किसी दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद इन दोनों के बीच बहस हो गई और ये बड़ी घटना हो गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अमोल मिटकरी ने मामले की गहन छानबीन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

नक्सली मानवाधिकार के ...

से नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में माओवाद प्रभावित क्षेत्र में 70 प्रतिशत तक मतदान हुआ। इससे पहले इस क्षेत्र में शून्य मतदान हुआ था। केंद्रीय गृहमंत्री ने नक्सलवाद को देश से पूरी तरह समाप्त करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नक्सल प्रभावित राज्यों से कहा कि वे नियमित अंतराल पर विकास और सुरक्षा पहलों की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मार्च 2026 तक इस समस्या का पूरी तरह उन्मूलन हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवाद से निपटने में सफलता के लिए सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पुलिस महानिदेशक और पूरी टीम को बधाई दी। शाह ने कहा कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए, 801 गिरफ्तार हुए और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही उन्होंने नक्सलवाद से जुड़े युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि चार पूर्वोत्तर हो या जम्मू-कश्मीर, करीब 13000 नक्सली और आतंकी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत 2004-2014 के बीच इस योजना पर 1180 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2014-2024 के बीच हमने 3,006 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो लगभग तीन गुना है। एसआरई मुख्य योजना है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में योगदान देती है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत हमने पिछले दशक में 3590 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शाह ने कहा कि 2019 से पहले सैनिकों के लिए दो हेलीकॉप्टर तैनात थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के छह और वायुसेना के छह हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जो सैनिकों की मदद करते हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए हर महीने बैठक करने का निर्देश दिया। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया कि वे विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए हर महीने बैठक करें।

बांग्लादेश में मां दुर्गा ...

घंटे इयूटी पर रहेंगे। हाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक इस्लाम ने प्रसिद्ध डाकेश्वरी मंदिर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश पुलिस, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ, व्यवधान मुक्त उत्सव का माहौल बनाने के लिए व्यापक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी पूजा मंडपों में शांतिपूर्ण और आनंदमय माहौल में त्योहार मनाया जाएगा। इस्लाम ने कहा ने कहा कि हर मंडप पर गश्त बढ़ा दी है। तटरक्षक बल और विशेष पुलिस इकाइयां तटीय और नौसैनिक क्षेत्रों की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी। अगर किसी ने ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों और उप जिला मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने 385 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सभागार में आयोजित एक समारोह में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 385 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्रों के वितरण में व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय से 183 नियुक्ति पत्र, उच्च शिक्षा निदेशालय से 81, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से 20 व्याख्याता पद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से 101 नियुक्ति पत्र शामिल हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि असम सरकार ने एक लाख




भर्ती के लक्ष्य को पार कर लिया है और अब तक कुल एक लाख 25 हजार 30 उम्मीदवारों को भर्ती की

व्याख्याताओं की भर्ती के लिए चल रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 35 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा क्षेत्र की प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 2, 084 व्याख्याताओं की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले इतने बड़े पैमाने पर भर्ती संभव नहीं हुई थी। पिछले तीन वर्षों में 2, 084 व्याख्याताओं की सफलतापूर्वक भर्ती की गई है, जिससे राज्य के शिक्षित युवाओं की निराशा दूर हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है।

उन्होंने विश्वविद्यालय के पदों पर भर्ती के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अब तक की हर भर्ती पारदर्शी रही है और विश्वविद्यालयों में भी भर्ती के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने आयुर्वेदिक क्षेत्र में 101 उम्मीदवारों को भर्ती की भी घोषणा की और दुधने में एक आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करने की योजना का उल्लेख किया। यह भर्ती अभियान न केवल असम के रोजगार के माहौल में एक महत्वपूर्ण क्षण है, बल्कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है।

पेरिस ओलंपिक में शामिल एसएसबी श्वान को एसएसबी महानिरीक्षक ने किया सम्मानित

गुवाहाटी (हिंस)। फ्रांस के पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक-24 के दौरान सशस्त्र सीमा बल, सीमांत गुवाहाटी की 6वीं वाहिनी का श्वान-768 राजा भी शामिल हुआ था। पेरिस लौटने के बाद आज आयोजित एक समारोह में एसएसबी के महानिरीक्षक ने श्वान राजा को सम्मानित किया। ज्ञात हो कि राजा विस्फोटक खोजी श्रेणी का जर्मन शेफर्ड नस्ल का श्वान है। श्वान राजा अपने परिचारक आरक्षी (सामान्य) विकास कुमार के साथ पेरिस ओलंपिक-24 के दौरान तैनात अर्धसैनिक बलों के श्वान दस्ता का हिस्सा रहा। जिसका दायित्व ओलंपिक आयोजन स्थलों को विस्फोटक गतिविधियों से बचाव करना था। इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को पूर्ण करने के पश्चात श्वान राजा अपने परिचारक के साथ भारत वापस



आया एवं 02 सितंबर को 6वीं वाहिनी एसएसबी, रानिगुली में वापसी की। एसएसबी सीमांत गुवाहाटी के महानिरीक्षक सुधीर वर्मा ने श्वान राजा एवं उसके परिचारक को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के निर्वहन एवं एसएसबी का मान बढ़ाने के लिए सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी में आज आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया।

नुमलीगढ़ में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत

मोरीगांव (हिंस)। मोरीगांव जिले में मनहा क्षेत्रीय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और जिले के पूर्व कार्यकारी सदस्य पार्थ प्रतिम बंग्थाई समेत तीन लोगों की बीती रात गोलाघाट जिले के नुमलीगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर देवपहाड़ में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने आज बताया कि दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि वाहन में सवार चार में से तीन लोगों की मौतें पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए गंभीर हालत में गुवाहाटी भेजा पड़ा। मृतकों की पहचान देवजीत बरदलै, पार्थ प्रतिम कोंवर तथा बिरंची बोरा के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल युवक की पहचान भूपू शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना देवपहाड़ियों के बीच नियंत्रण खोने के बाद उस समय हुई, जब वे रात में नुमलीगढ़ की ओर से एनआरएल जा रहे थे।

चिरांग के मॉडल पैक्स के निदेशक मंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

विकसित भारत समाचार चिरांग। आज काजलगांव एसएस लिमिटेड, चिरांग के मॉडल पैक्स के निदेशक मंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस सत्र का उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों को मॉडल पैक्स ढांचे के तहत आगामी पहलों से परिचित कराना और प्रभावी शेयरधारक जुटाने के लिए रणनीति विकसित करना था। श्री जयंत खेरकटारी, सीएचडी कोऑपरेटिव्स ने बैठक की अध्यक्षता की और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में इन पहलों के महत्व को रेखांकित किया। बोर्ड के सदस्यों को योजनाबद्ध गतिविधियों और सहकारी समिति और उसके सदस्यों दोनों के लिए उनके प्रत्याशित लाभों के बारे में व्यापक जानकारी मिली। बैठक सकारात्मक रूप से संपन्न हुई, जिसमें बोर्ड के सदस्यों ने मॉडल पैक्स पहलों के कार्यान्वयन पर सहयोग करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिससे काजलगांव एसएस लिमिटेड की निरंतर सफलता सुनिश्चित हुई।

कामरूप जिला की दुर्गा पूजा समितियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

रिंगिया (विभास)। कामरूप जिले के ददरा स्थित भृगु कुमार फुक्न सार्वजनिक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को राज्य सरकार के पर्यावरण और वन आदि विभाग के मंत्री तथा कामरूप जिले के अभिभावक मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने जिले की 85 दुर्गा पूजा समितियों को औपचारिक रूप से चेक सौंपकर आर्थिक अनुदान प्रदान किया। कामरूप जिले के जालुकबारी, हाजी-शुवालकुची, बोको-छयगांव और समरिया विधानसभा क्षेत्रों में तीन साल से अधिक पुरानी 85 दुर्गा पूजा समितियों में से प्रत्येक को 10, 000 रुपए कर आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। इस मौके पर अपने भाषण में, मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने कहा कि ड.श. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों के व्यापक विकास के जिए असम



को देश के शीर्ष पांच सबसे अमीर राज्यों में शामिल करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है। मंत्री ने कहा कि इस प्रयास के तहत राज्य में दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय सहायता

प्रदान की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी हेमंत चौधरी ने भाग लिया, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ड.श. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पूजा समितियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता से उन्हें शारदीय दुर्गा पूजा को खूबसूरती से मनाने में मदद मिलेगी। बैठक में कामरूप जिले के जिला आयुक्त देव कुमार मिश्र ने स्वागत भाषण प्रदान किया। इस कार्यक्रम में मंत्री चंद्रमोहन पटवारी, कामरूप जिले के जिला आयुक्त देव कुमार मिश्र, मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी हेमंत चौधरी, अतिरिक्त जिला आयुक्त प्रणव दत्त गोस्वामी सहित जिले की पूजा समितियों के पदाधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कामरूप जिले की कुल 183 दुर्गा पूजा समितियों को इस वित्तीय सहायता प्रक्रिया के तहत कवर किया गया है।

नॉर्थ ईस्ट डीवीओक्स प्रतियोगिता में रिशा यामीन खान को मिला पहला स्थान



रिंगिया (विभास)। मयूर प्रोडक्शन बैनर तले आयोजित चौथा मिस्टर एंड मिस नॉर्थ ईस्ट डीवीओक्स सौंदर्य प्रतियोगिता के किशोर शाखा में रिंगिया की रिशा यामीन खान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मातुम हो कि गुवाहाटी के रंजिणी नगर में आयोजित इस प्रतियोगिता में उत्तर पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्य से आए सौ से भी अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं द्वारा चुने गए पहले 8 प्रतियोगियों में से रिंगिया फातिमा कॉन्वेंट स्कूल की आठवीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा रिशा यामीन खान प्रथम स्थान पर रहीं। रिंगिया के प्रमुख व्यवसायी राजीव खान और सामिना आहमेद की पुत्री रिशा यामीन खान को इस सफलता पर उसके परिवार सहित रिंगिया भर में काफी खुशी का माहौल है।

जेसीआई और लायंस के रंगीलो डांडियो में झूम उठा बरपेटारोड

बरपेटारोड। नवरात्रि की धूम समग्र भारत के शक्ति पुजन करने वाले धर्मानुयायियों में चरम पर होती है ऐसे में असम के बरपेटारोड के जेसीआई एवं लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में गुजरात के पारम्परिक डांडिया रास के रूप में गत रविवार को शाम को बरपेटारोड

के लाल गोदाम प्रांगण में गरिमायुगी उपस्थिति के साथ सफलता पूर्वक सम्पादित हुआ। जेसीआई की अध्यक्ष जेसी खेहा खेमका एवं लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन राजीव महेश्वरी ने उपस्थित सभी का अभिनंदन करते हुए बताया कि भारत विविधताओं का देश है तथा

यहां जाति, धर्म और संस्कृति का यथोचित सम्मान है। असम भी इससे अछूता नहीं है यहां के युवाओं में अन्य संस्कृति का सम्मान तथा उनकी अच्छाईयों को आत्मसात करने का जज्बा है। कार्यक्रम में दोनों ही संस्थाओं के सदस्यों एवं परिवजनों के अलावा स्थानीय बृहतर समाज

से भी अच्छी संख्या में समाज बंधुओं ने उत्साह के साथ अंश ग्रहण कर कार्यक्रम को गरिमा बढ़ाई। नवांगलुक को कोरियोग्राफर साहिल द्वारा डांडिया नृत्य करने की शैली भी तीन दिवसीय कार्यवाला द्वारा सिखाई गई। कार्यक्रम का शुरुआत बरपेटा एस पी सुशांत विश्व शर्मा एवं एस

एस बी 27 बटालियन के लेफ्टिनेंट कमांडर 1 धीरज सिंह, एवं लेफ्टिनेंट कमांडेंट 2 सुजीत सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर करवाया गया। कोरियोग्राफर साहिल एवं उनकी टीम द्वारा आकर्षक गणेश वंदना की प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात सार्वजनिक डांडिया नृत्य आरंभ हुआ।

अभाविप ने प्रागज्योतिष कॉलेज की छात्र एकता सभा के चुनाव में मारी बाजी



गुवाहाटी (हिंस)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सोमवार को गुवाहाटी के प्रागज्योतिष कॉलेज की छात्र एकता सभा के चुनाव

अलताफ हुसैन ने जीत हासिल की, जबकि महासचिव पद पर भार्गव राजवंशी ने जीत हासिल की। इसके अलावा सहायक महासचिव ऋषिक कलिता, क्रिकेट सचिव के रूप में उदीत डेका, ज्ञानदीप शर्मा को सर्किल ऑफ डिबेट एंड स्टडीज, इपिता बरुवा को सांस्कृतिक सचिव और अनुज महतो को जिम सचिव पद के लिए निर्वाचित चुना गया। गौरतलब है कि इस जीत के अंत में विद्यार्थी परिषद के गुवाहाटी महाविद्यालय के पदाधिकारियों ने विजयी प्रत्याशियों के साथ विजय रेली निकाली, जिसमें महाविद्यालय के लगभग तीन सौ छात्र-छात्राओं एवं विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

भारी मात्रा में हेरोइन के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

काबी आंगलांग (हिंस)। इस के खिलाफ बोकाजान पुलिस द्वारा चलाए गए एक अभियान में 10 साबुन के डिब्बों में रखा गया 117.52 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। इस दौरान तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एनएच-39 पर खटखटी पुलिस द्वारा ली गई तलाशी में मणिपुर से आ रहे एक मारुति ऑटो वाहन (एस-01बी-7436) को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन से हेरोइन बरामद किया गया। वाहन में सवार एक व्यक्ति ने अपने शरीर में और वाहन के गुप्त कक्ष में छिपाकर प्रतिबंधित हेरोइन की आपूर्ति करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने हेरोइन के साथ अरणाचल प्रदेश के नांग थोरंग, तारम रीयान और तिरसुकिया जिले के बिराज माली को गिरफ्तार किया।

तेरापंथ धर्मस्थल में सेमिनार एवं निःशुल्क हड्डी जांच शिविर का समापन

गुवाहाटी (विभास)। तेरापंथ युवक परिषद, गुवाहाटी के तत्वाधान में तेरापंथ धर्मस्थल के जयसभागार में एक चिकित्सकीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन डॉ. धीरज मरोटी जैन उपस्थित थे, जिन्होंने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एवं विभिन्न रोगों के साथ उनके बचाव के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात आचार्य तुलसी डायनोस्टिक सेंटर गुवाहाटी के सहयोग से तेरापंथ धर्मस्थल के प्रथम तल्ले में निःशुल्क हड्डी जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें डॉ. मरोटी जैन ने लोगों की ज्वाइंट का इलाज किया एवं परामर्श दिया। सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चले इस निःशुल्क जांच शिविर का काफी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। इस शिविर के प्रायोजक अजीत कुमार सुनील कुमार कठोटिया थे। कार्यक्रम का शुभारंभ नमस्कार महामंत्र से हुआ। अध्यक्ष सतीश भदानी



ने शिविर में उपस्थित सभी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। तत्पश्चात डॉ. मरोटी एवं उनकी टीम का तेरापंथ युवक परिषद की ओर से फुलाम गामोछा से स्वागत-अभिनंदन किया गया। इस शिविर का प्रायोजन करने में संचालक समिति के संयोजक इंकार दुधोरिया एवं तेषुप पूर्व अध्यक्ष मनीष सिंघी का विशेष योगदान रहा। इस शिविर के संयोजक महक दुगड़ थे। तेरापंथ युवक परिषद के मंत्री पंकज सेटिया ने शिविर के सफल समापन में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया है। इस आयोजन की जानकारी तेरापंथ युवक परिषद के सहमंत्री राहुल नाहटा ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञापित में दी।

अयुप की चार दिवसीय अग्रसेन जयंती सोल्लास संपन्न माहेश्वरी महिला समिति ने किया 201 कन्याओं का पूजन

गुवाहाटी (विभास)। अग्रवाल युवा परिषद गुवाहाटी द्वारा आयोजित चार दिवसीय अग्रसेन जयंती के चौथे दिन गुवाहाटी गौशाला के वृंदावन गार्डन में कई कार्यक्रमों के साथ अग्रसेन जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आर्माजित अतिथि दुर्गा अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, अग्रवाल युवा परिषद के अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल, सचिव खेहा जालान एवं परिषद के सभी पूर्व अध्यक्षों ने माता लक्ष्मी और अग्रसेन महाराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी प्रदीप भड्डे ने अपने संबोधन में कहा कि हम अग्रसेन महाराज को साल में एक बार ही याद करते हैं। अगर हम अग्रसेन महाराज की एक फोटो हर अग्रवाल परिवार के घर पहुंचा दे तो एक बहुत अच्छा कदम होगा। हमारी आज की युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन के बारे में नहीं जानती है। युवा पीढ़ी को महाराज अग्रसेन के आदर्शों के बारे में जागरूक करने का कार्य हमें करना होगा। जिस नाम के साथ युवा शब्द आता है वह नाम अपने आप में शक्तिशाली हो जाता है। अतः गुवाहाटी में हर अग्रवाल परिवार से एक युवा सदस्य अग्रवाल युवा परिषद का



सदस्य होना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर श्याम सुंदर हरलालका को अग्रभूषण की उपाधि प्रदान करते हुए उन्हें शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा श्रीमती नीलम अग्रवाल और सदीप चर्माडिया को अग्रगौरव की उपाधि प्रदान करते हुए शॉल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इससे पहले अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि गुवाहाटी में अग्रवाल युवा परिषद ने सन 2000

में स्थापना के बाद अपने 25वें वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए गुवाहाटी गौशाला में एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में महाराजा अग्रसेन की 5185वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम में राजस्थान के सांस्कृतिक कार्यक्रम, बिहू व दोनों राज्यों के संगीत और नर्चों और युवाओं के लिए मेहंदी कला, तीरंदाजी, कठपुतली शो, जादूगर, ज्योतिषी, मिट्टी के बर्तन आदि जैसी कई गतिविधियों से भरा हुआ था। इसमें राजस्थानी कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार शहनाज फोगा द्वारा मटकी नृत्य, सुनीता की मंडली द्वारा एक नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता में हाल ही में हुए आरजी कर कॉलेज मामले को चित्रित करते हुए सामाजिक संदेश फैलाने के लिए प्रदर्शन किया गया और फिर असम की भूमि से बहुभाषी कलाकारों का एक लाइव बैंड था। मंच पर जातीय बिहू नृत्य देखा गया जो असम के नृत्य का क्षेत्रीय रूप है। एकम - विविधता में एकता थीम के साथ अग्रवाल युवा परिषद ने समाज के सभी लोगों के बीच एकजुटता लाने का प्रयास किया, चाहे वे किसी भी जाति के हों। इस अवसर पर परिषद के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष एवं कार्यकारी पद सदस्यों ने भाग्यशाली दान पत्र का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक धानुका, डी.पी. बजाज, कैलाश काबर, भगवती प्रसाद खेमका, विनोद लोहिया, ओम प्रकाश अग्रवाल, ललित धानुका, निरंजन सिकरिया, दिनेश गुप्ता, पंकज जालान और अन्य सामाजिक संगठनों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम ने नवरात्रि के महत्व को चिह्नित करने के लिए गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया रास का भी आयोजन हुआ।



रिंगिया (विभास)। समाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाली माहेश्वरी महिला समिति गुवाहाटी के तत्वाधान में नवरात्रि के उपलक्ष में 6/10/24 को माहेश्वरी भवन में कन्या पूजन का आयोजन किया

गया। सर्वप्रथम मां दुर्गा के समक्ष पूजा आरती करके भोग लगाया गया। तत्पश्चात दूध मिश्रित जल से कन्याओं के पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाया गया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद उपहार दक्षिणा आदि

देकर उन्हें विदा किया गया। सभा अध्यक्ष सीताराम बिहानी सचिव सुरेंद्र लाहोटी सह सचिव नारायण गट्टानी माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भगवानदास दम्माणी, पूर्वोत्तर उपाध्यक्ष सीता झवर, पूर्व अध्यक्ष शकुंतला मीमानी, संतोष दम्मानि निवर्तमान अध्यक्ष सरला लाहोटी, अध्यक्ष बर्षा सोमानी, सचिव पुष्पा सोनी, कोषाध्यक्ष मधुलिका चांडक, संयोजक मीनाक्षी मिमानी, ममता धूत तथा समिति और समाज को कई अन्य बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। दो सौ एक कन्याओं का देवी स्वरूप पूजन किया गया। सभी बड़े चाव से आई और प्रसन्न होकर गईं। जन संपर्क अधिकारी सीमा सोनी ने बताया बहुत ही सुंदर व सुचारू रूप से कन्या पूजन का कार्य संपन्न हुआ।



रिजर्व बैंक की एमपीसी की समीक्षा बैठक शुरू, रेपो रेट यथावत रहने की संभावना

मुंबई।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक यहां सोमवार को शुरू हो गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक 9 अक्टूबर को खत्म होगी। इस बैठक के फैसले की जानकारी गवर्नर शक्तिकांत बुधवार, 9 अक्टूबर को देंगे। हालांकि, इस बार भी नीतिगत

ब्याज दर में बदलाव की संभावना नहीं है।

आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक इस बार भी नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। जानकारों का कहना है कि एमपीसी इस बार भी इजरायल-ईरान जंग की हालात और अमेरिकी फेडरल रिजर्व का अनुसरण नहीं करेगा, जिसने बैंचमार्क दरों में 0.5 फीसदी तक की कटौती की गई है।

लेकिन, विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर में होने वाली एमपीसी बैठक इसमें कुछ ढील की गुंजाइश है।

छह सदस्यीय एमपीसी नीतिगत दर करेगी फैसला

केंद्र सरकार ने एक अक्टूबर को मौद्रिक नीति समिति में राम सिंह, सोमगत भद्राचार्य और नागेश कुमार सहित तीन नए बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक के

एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास सहित तीन सदस्य हैं, जिनमें डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और एजीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंज शामिल हैं।

वया होता है नीतिगत दर यानी रेपो रेट

रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक किसी भी तरह की कमी की

स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देता है। आरबीआई रेपो दर का उपयोग मौद्रिक प्राधिकरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करता है। इससे पहले अगस्त में हुई एमपीसी की बैठक में आरबीआई ने लगातार 9वां बार नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2023 से रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर यथावत रखा है।

न्यूज़ ब्रीफ

पूजा के दौरान छह दिनों तक हिली बंदरगाह के जरिये भारत-बांग्लादेश के बीच बंद रहेगा वाणिज्यिक आदान-प्रदान



दिनाजपुर। दिनाजपुर जिले के हकीमपुर महकमे में स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा के हिली बंदरगाह पर पूजा के दौरान छह दिनों तक व्यापार बंद रहेगा। बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिली बंदरगाह प्राधिकरण ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि इस बंदरगाह पर अगले छह दिनों के लिए सभी प्रकार के आयात-निर्यात बंद रहेंगे। व्यापार न होने पर भी इस समय प्रवास संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक यह पोर्ट नौ अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक बंद रहेगा। हिली एक्सपोर्टर्स एंड कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन ने बंद की पुष्टि की है। हिली बंदरगाह मुख्य रूप से भारत से बांग्लादेश को कच्ची मिर्च, प्याज, दालें और मसाले निर्यात करता है। दूसरी तरफ, राईस ब्रैन आयात और गुड़ बांग्लादेश से भारत में आयात किया जाता है। हाल ही में बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के कारण बंदरगाह काफी समय के लिए बंद कर दिया गया था। परिस्थिति सुधरने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पर सिरों से शुरू की गई है।

सर्गाफा बाजार में मामूली गिरावट, सोना और चांदी की कीमत घटी



नई दिल्ली। घरेलू सर्गाफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के कारण देश के अधिकांश सर्गाफा बाजारों में 24 केरेट सोना 77,810 रुपये से लेकर 77,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 केरेट सोना 71,340 रुपये से लेकर 71,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के कारण दिल्ली सर्गाफा बाजार में ये चमकीली धातु 96,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 केरेट सोना 77,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 केरेट सोने की कीमत 71,340 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 केरेट सोना 77,660 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 केरेट सोना 71,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 केरेट सोने की रिटेल कीमत 77,710 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 केरेट सोने की कीमत 71,240 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

कच्चा तेल 78 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर



नई दिल्ली। इजरायल-ईरान जंग के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेट क्रूड का भाव 78 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कर्पणियों ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में ब्रेट क्रूड 0.27 डॉलर यानी 0.36 फीसदी की गिरावट के साथ 77.77 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.18 डॉलर यानी 0.24 फीसदी फिसल कर 74.20 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक नई दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का भाव 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

लिस्टिंग के जरिए 2 कंपनियों की स्टॉक मार्केट में दस्तक पहले दिन ही आईपीओ निवेशकों को लगा झटका

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में दो कंपनियों ने लिस्टिंग के जरिए दस्तक दी। इन दोनों कंपनियों के आईपीओ निवेशकों को शुरुआती कारोबार में निरशा का सामना करना पड़ा। इनमें से एक कंपनी के शेयर मुनाफे के साथ लिस्ट होने के बाद बिकवाली का शिकार हो गए, जबकि दूसरे कंपनी के शेयर निगेटिव प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सर्विस देने वाली कंपनी एचवीएक्स टेक के शेयरों की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 6.11 प्रतिशत प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई।

आईपीओ के तहत कंपनी ने 458 रुपये के भाव पर शेयर जारी किए थे, लेकिन इनकी लिस्टिंग 486 रुपये के स्तर पर हुई। मजबूत लिस्टिंग के बावजूद आईपीओ निवेशकों की खुशी थोड़ी देर में ही फीकी पड़ गई, क्योंकि ये शेयर बिकवाली का शिकार हो गया। कंपनी का 33.53 करोड़ रुपये का आईपीओ 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था।



आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। ये आईपीओ ओवरऑल 34.16 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 7.32 लाख शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल वकिंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में किया जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पर विला और रिजॉर्ट सर्विस देने वाली कंपनी साज होटल्स के शेयरों की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के साथ आईपीओ निवेशकों

को जोरदार झटका लगा क्योंकि ये शेयर 15.38 प्रतिशत के नुकसान के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। आईपीओ के तहत कंपनी ने 65 रुपये के भाव पर शेयर जारी किए थे लेकिन इसकी लिस्टिंग 10 रुपये यानी 15.38 प्रतिशत के नुकसान के साथ 55 रुपये के स्तर पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद खरीदारों के सपोर्ट से इस शेयर में तेजी भी आई। थोड़ी ही देर में ये शेयर उछल कर 57.75 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गया। हालांकि इस शेयर के अपर सर्किट लेवल पर पहुंचने के बावजूद आईपीओ निवेशकों की अभी भी 11.15 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है।

साज होटल्स का 27.63 करोड़ रुपये का आईपीओ 27 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने के बाद 1 अक्टूबर को क्लोज हुआ था। इस आईपीओ को ओवरऑल 5.46 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसमें खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्शन में 8.65 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन आया था। आईपीओ के तहत कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 42.50 लाख नए शेयर जारी किए हैं। आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने मौजूदा रिजॉर्ट नेटवर्क का विस्तार करने, वकिंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में करेगी।

आईआईबीएक्स पर जल्द लॉन्च होगा सिल्वर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलेटर की मंजूरी का इंतजार

नई दिल्ली। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) पर जल्दी ही सिल्वर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके लिए आईआईबीएक्स की ओर से रेगुलेटर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स ऑथॉरिटी (आईएफएससीए) के पास रेगुलेटरी सबमिशन का काम किया जा चुका है। रेगुलेटरी अग्रुव मिलते ही सिल्वर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की लॉन्चिंग हो जाएगी। फिलहाल आईआईबीएक्स पर चांदी की स्पाट ट्रेडिंग होती है।

आपको बता दें कि इसके पहले इसी साल जून के महीने में आईआईबीएक्स ने गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को शुरुआत की थी। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सिल्वर के भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लाने की इस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर तैयारी कर ली गई है। आईआईबीएक्स पर सिल्वर की स्पाट ट्रेडिंग पहले से ही चल रही है। पिछले साल दिसंबर के महीने में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। 2023-24 के दौरान इसकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू 69.8 करोड़ डॉलर थी, जबकि इस दौरान ट्रेडेड वॉल्यूम 908.8 टन रहा था।

आईआईबीएक्स पर ट्रेडिंग शुरू होने के पहले ज्वेलर्स सिर्फ चुनिंदा बैंकों के जरिए ही सोने और चांदी की खरीदारी करते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स सोने या चांदी का आयात कर सकते हैं।

भारत-मालदीव के बीच रुपये कार्ड से भुगतान शुरू, 200 से अधिक देशों में मान्य



नई दिल्ली। मालदीव में रुपे कार्ड की शुरुआत हो गई है। मालदीव के एक स्थानीय स्टोर पर एक उपभोक्ता ने सोमवार को रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर सामान खरीदा और उसका भुगतान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु इस तरह के पहले लेन-देन के गवाह बने। मालदीव की अर्थव्यवस्था कई मायनों पर भारत पर निर्भर है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच 50 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि इससे पहले 2014 में ये 17 करोड़ डॉलर था। रुपे कार्ड की लॉन्चिंग के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। आने वाले समय में भारत और मालदीव यूपीआई के जरिए जुड़ जाएंगे। रुपे कार्ड पेमेंट्स की पहली लेन-देन के गवाह भारतीय

पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइजु भी बने। दोनों ने भारत से ही इस नकार को लाइव देखा और ताली बजाई। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है रुपे कार्ड और कैसे यह करता है काम।

क्या होता है रुपे कार्ड : - रुपे कार्ड भारत का स्वदेशी पेमेंट नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड के जरिए ऑनलाइन और ऑनलाइन लेन-देन के लिए किया जाता है। यह एक अत्यधिक सुरक्षित नेटवर्क है, जो एंटी-फिशिंग से बचाता है। रुपे कार्ड नेशनल

पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने जारी किया है। इस कार्ड को दुनियाभर के 200 से अधिक देशों और 42.4 मिलियन से ज्यादा स्थानों और 1.90 मिलियन से अधिक एटीएम पर स्वीकार किया जाता है। प्रणव मुखर्जी ने किया था लॉन्च : - रुपे कार्ड को आधिकारिक तौर पर 8 मई, 2014 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने लॉन्च किया था। ये कार्ड भारत के अलावा कई और देशों में भी उपलब्ध है। रुपे कार्ड के जरिए एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं, पीओएस पर खरीदारी की जा सकती है। इस कार्ड के क्लासिक, प्लैटिनम और सेलेक्ट तीन प्रकार हैं। रुपे कार्ड के जरिए रेलवे टिकट बुक करने पर कैशबैक भी मिलता है। रुपे कार्ड के जरिए कम-मूल्य वाले लेन-देन के लिए संपर्क रहित कार्ड भी उपलब्ध हैं।

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, एशिया में भी तेजी का रुख

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। हालांकि डाउ जॉन्स प्यूअर्स फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार की तरह ही यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान आम तौर पर मजबूती बनी रही। एशियाई बाजार में भी तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिका में सितंबर 2024 के रोजगार के मजबूत आंकड़ों की वजह से पिछले सत्र के दौरान निवेशक उत्साहित होकर लगातार खरीदारी करते रहे, जिससे वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद होने में सफल हुए। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.90 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,751.07



अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डैक ने 219.37 अंक यानी 1.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,137.85 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। हालांकि डाउ जॉन्स प्यूअर्स फिलहाल 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 42,282.43 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजार की तरह ही यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। हालांकि आखिरी घंटे में हुई बिकवाली की वजह से यूरोपीय बाजार मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुई। एफटीएसई इंडेक्स 0.02 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 8,280.63 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, सीएसई इंडेक्स ने 0.84 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,541.36 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसी तरह डीएएक्स इंडेक्स 105.52 अंक यानी 0.55 प्रतिशत उछल कर 19,120.93 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में भी तेजी का रुख बना हुआ है। एशिया के 9 बाजारों में से 8 के सूचकांक बढ़त के साथ हर निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि

चीन के स्टॉक मार्केट में छुट्टी होने की वजह से शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में कोई कारोबार नहीं हो रहा है। गिफ्ट निफटी 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,232.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रैट्स टाइम्स इंडेक्स 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,598.95 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। निककेई इंडेक्स ने जोरदार उछाल लगाई है। फिलहाल ये सूचकांक 823.50 अंक यानी 2.13 प्रतिशत की उछाल के साथ 39,459.12 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 322.47 अंक यानी 1.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 22,625.18 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा हेंग सेंग इंडेक्स 258.06 अंक यानी 1.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,994.93 अंक के स्तर पर, कोस्पी इंडेक्स 1.09 प्रतिशत उछल कर 2,597.73 अंक के स्तर पर, सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,445.16 अंक के स्तर पर और जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.07 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,501.06 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।



विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड महिला टीम तीन वनडे मैचों के लिए करेगी भारत का दौरा

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की महिला टीम अहमदाबाद में चल रहे टी20 विश्व कप फाइनल के तुरंत बाद तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारत का दौरा करेगी। ये तीन मैच क्रमशः 24, 27 और 29 अक्टूबर को खेले जाते हैं।

जो आईसीसी महिला एकदिवसीय चैम्पियनशिप 2022-25 का हिस्सा है। न्यूजीलैंड को पिछले साल इस दौर के लिए आना था, लेकिन 2023 की भारतीय टीम की व्यस्त सदियों के कारण इस श्रृंखला को स्थगित करना पड़ा, जिसमें डब्ल्यूबीबीएल के नौवें संस्करण के समापन के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो एक-एक टेस्ट मैच शामिल थे। चैंपियनशिप फाइनल के साथ, दोनों टीमों के पूरी ताकत से खेलने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि ए-लिस्टर्स

डब्ल्यूबीबीएल 2024 में अपनी-अपनी टीमों के कम से कम पहले दो राउंडमिस कर सकते हैं, जो दूसरे वनडे के साथ ही शुरू होगा। इस साल छह भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लीग में जा रहे हैं, जिनमें उप-कप्तान स्मृति मंधाना भी शामिल हैं। डब्ल्यूबीबीएल के समापन के बाद, 1 दिसंबर को, भारतीय टीम को 5-11 दिसंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच भी खेले हैं। न्यूजीलैंड वर्तमान में 10 टीमों की आईडब्ल्यूसी स्टैंडिंग में छठे स्थान पर है, जिसने अब तक अपने 18 वनडे में से केवल आठ जीते

हैं। 2025 के वनडे विश्व कप की मेजबानी करने के कारण भारत को इस मेगा इवेंट के लिए स्वतः ही क्वालिफाई करना होगा। इस शोपीस इवेंट से पहले महिला टीम को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर खेलने का मौका देने के लिए, बीसीसीआई ने नए बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल आयोजित करने का फैसला किया है। भारत के अलावा, आईडब्ल्यूसी तालिका में शीर्ष पांच टीमों अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे, जबकि शेष चार को अपनी जगह बनाने के लिए क्वालिफायर से गुजरना होगा।

न्यूज़ व्रिफ

रियल मैड्रिड के स्टार राइट-बैक डेनी कार्वाजल को करानी होगी घुटने की सर्जरी

मैड्रिड। रियल मैड्रिड के स्टार राइट-बैक डेनी कार्वाजल को विलारियल के खिलाफ ला लीगा में मैड्रिड के आखिरी मैच के दौरान घुटने में चोट लग गई। स्पेनियार्ड कई वर्षों से लॉस ब्लैंकोस बैक लाइन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी चोट स्पेनिश वलब के लिए एक झटका होगी। विलारियल के खिलाफ, रियल मैड्रिड ने 2-0 से जीत हासिल की और तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। इससे पहले रिवार को, रियल मैड्रिड ने एक बयान जारी किया और कहा कि कार्वाजल के दाहिने पैर में पॉप्लिटस टेंडन फट गया है और आने वाले दिनों में उसकी सर्जरी होगी है। रियल मैड्रिड ने कहा, रियल मैड्रिड मेडिकल सर्विसेज द्वारा डेनी कार्वाजल पर किए गए परीक्षणों के बाद, खिलाड़ी के दाहिने पैर में फटे हुए पूर्ववर्ती क्रॉसिफट लिगामेंट, फटे हुए बाहरी कोलेटरल लिगामेंट और फटे हुए पॉप्लिटस टेंडन का पता चला है। आने वाले दिनों में उसकी सर्जरी होगी। विलारियल के खिलाफ मैच की समाप्ति के बाद लॉस ब्लैंकोस के मुख्य कोच कार्लो एसेलोटी ने कहा कि कार्वाजल की चोट पूरी टीम को प्रभावित करेगी। उन्होंने रियल मैड्रिड की आधिकारिक वेबसाइट के हवाले से कहा, जब डेनी जैसे खिलाड़ी के साथ ऐसा कुछ होता है, जो हमेशा प्रेरित रहता है, तो इसका असर सभी खिलाड़ियों और पूरी टीम पर पड़ता है। हमें जवाब देना होगा। पिछले साल हमने अपनी चोटों पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी और इस साल हमें यह सुनिश्चित करने के लिए और प्रयास करने होंगे कि चोटें बाकी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनें, जैसा कि पिछले साल हुआ था।

जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्णकालिक मुख्य कोच नियुक्त



नई दिल्ली। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले टीम के अंतरिम मुख्य कोच के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें पूर्णकालिक मुख्य कोच का दर्जा दे दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने सोमवार को एक बयान में बताया कि श्रीलंका क्रिकेट सनथ जयसूर्या को राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा करता है। एसएलसी ने आगे लिखा कि श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति ने भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया दौरों में टीम के अच्छे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जहां जयसूर्या 'अंतरिम मुख्य कोच' के रूप में प्रभावी थे। श्रीलंका क्रिकेट ने बताया कि उनकी यह नियुक्ति एक अवदूर, 2024 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।

बावुमा तीसरे एकदिवसीय से बाहर हुए, हैड्रिक्स शामिल किये गये, वैन डेर डुसेन करेंगे कप्तानी

अबु धाबी। दक्षिण अफ्रीकी एकदिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा चोटिल होने के कारण आयर्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पर रासी वैन डेर डुसेन आयर्लैंड के खिलाफ होने वाले अंतिम एकदिवसीय में टीम की कप्तानी करेंगे। मेजबान टीम पहले ही इस सीरीज में 2-0 से आगे है। बावुमा को दूसरे एकदिवसीय के दौरान चोट लग लगी थी। इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गये थे। बावुमा की जगह रीजा हैड्रिक्स को टीम में शामिल किया गया है। वहीं ऑलराउंडर वियान मूल्डर भी निजी कारणों से स्वदेश वापस चले गये हैं। इससे दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपना अंतिम ग्यारह में बदलाव करना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने कहा, बावुमा को बाई कोहनी में चोट के कारण आयर्लैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस आयोजन में गुयाना अमेजन वॉरियर्स और दुनिया भर की चार अन्य स्थापित टी20 टीमों में भाग लेंगे। आयोजकों ने सोमवार को उक्त जानकारी दी। यह दक्षिण अमेरिकी का पहला स्टैंडअलोन क्रिकेट आयोजन होगा और इसे क्रिकेट वेस्टइंडीज द्वारा मंजूरी दी गई है और गुयाना सरकार द्वारा इसका पूरा समर्थन किया जाता है, जो

हमारे बल्लेबाजों को नहीं पता कि 180 रन कैसे बनाएं - नजमुल हुसैन शांतो

ग्वालियर। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने रिवार को स्वीकार किया कि पावरप्ले का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में उनकी विफलता टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। भारत ने ग्वालियर में तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 49 गेटें शेष रहते सात विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के लिए पावरप्ले में यह एक और विफलता थी क्योंकि बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद उन्हें पहले छह ओवरों में केवल 39 रन मिले और अंततः 127 रन पर आउट हो गए। दूसरी ओर, भारत ने पावरप्ले में 71 रन बनाए और 11.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

पावरप्ले बल्लेबाजी काफी समय से टी20आई में बांग्लादेश के लिए एक समस्या रही है और उनका संघर्ष जारी रहा, साथ ही टीम लंबे समय तक अपने ओपनिंग संयोजन से भी जुड़ती रही। लिटन दास (4) ने पहले ओवर में एक लापरवाह शॉट खेला जिससे वह पवेलियन लौट गए, जबकि परवेज हुसैन इमोन, जो कुछ समय बाद टी20आई क्रिकेट में लौटे थे, अर्शदीप की गेंद पर बल्लेबाजी करने वालों को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नजमुल के अनुसार कौशल-सेट और मानसिकता दोनों टीमों के बीच अंतर के मुख्य बिंदु हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम उतनी खराब नहीं है, जितनी भारत के खिलाफ पहले मैच के बाद लग रही थी। नजमुल ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने खराब खेला। हम इससे बेहतर टीम हैं। हमने लंबे समय से इस प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है,



लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतनी खराब टीम हैं। मैं किसी एक खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि बल्लेबाजी इकाई ने आज अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हम जिस तरह से स्कोरिंग करते हैं, उसमें आक्रामकता होगी, लेकिन कभी-कभी हमें गेंदों का सही चयन करना होता है। हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदलने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, हमारे पास क्षमता है, लेकिन हमारे कौशल में सुधार की गुंजाइश है। हम पिछले दस सालों से इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कभी-कभी हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हमें कुछ बदलाव करने होंगे, शायद जहां हम घर पर अभ्यास करते हैं। हम घर पर 140-150 विकेट पर खेलते हैं। हमारे बल्लेबाज 180 रन बनाते हैं, लेकिन हमें कौशल और मानसिकता पर विचार करना होगा।

गर्दन की चोट के कारण ब्राजील के विश्व कप क्वालीफायर से बाहर हुए विनीसियस जूनियर



साओ पाउलो। ब्राजील के फारवर्ड विनीसियस जूनियर चोट के कारण चिली और पेरू के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर मैचों में नहीं खेल पाएंगे। जिससे वह टीम में प्रतिस्थापित होने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ब्राजील फुटबॉल संघ (सीबीएफ) ने रिवार को उक्त जानकारी दी। विनीसियस जूनियर के क्लब रियल मैड्रिड ने कहा कि शनिवार को विलारियल के खिलाफ टी20 टीमों में भाग लेंगे। आयोजकों ने सोमवार को गर्दन में चोट लग गई थी।

सीबीएफ ने रिवार को एक बयान में कहा कि फुलहम के मिडफील्डर एंड्रियास परेरा को उनकी जगह लेने के लिए बुलाया गया है। विनीसियस की चोट ने कोच डेविल जूनियर को मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि आठ मैचों के बाद 10 अंकों के साथ दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिषद के विश्व कप क्वालीफायर स्टेडियम में पांचवें स्थान पर काबिज ब्राजील को 10 अक्टूबर को सेंटियागो में चिली का सामना करना है, उसके बाद पांच दिन बाद ब्रासीलिया में पेरू की मेजबानी करनी है।

पाकिस्तान ने जाह्द महमूद और नोमान अली को टीम से किया बाहर

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन लेग स्पिनर जाह्द महमूद और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स नोमान अली को अपनी टीम से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान ने केवल पहले टेस्ट के लिए अपनी टीम की घोषणा की थी, जिसमें महमूद को टेस्ट से शामिल किया गया था, जो 16वें खिलाड़ी थे। लेग स्पिनर को पाकिस्तान द्वारा शुरुआती टेस्ट के लिए 15 खिलाड़ियों की घोषणा करने के एक दिन बाद जोड़ा गया था। उन्होंने केवल दो टेस्ट मैच खेले हैं, जो दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के पिछले पाकिस्तान दौरे के दौरान आए थे और चार परिश्यों में 12 विकेट लिए थे।



अली पिछले साल तक पाकिस्तान की टीम में नियमित रूप से शामिल थे। उन्हें पिछले दिसंबर में तीव्र अपेंडिसाइटिस के कारण पाकिस्तान के टेस्ट दौरे की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश लौटना पड़ा था और अगस्त और सितंबर में बांग्लादेश के दो टेस्ट के लिए 17 खिलाड़ियों की टीम में उनका नाम नहीं था। पाकिस्तान ने अपनी टीम में 15 खिलाड़ियों को शामिल किया था और चोटिल खुर्रम शहजाद की जगह अली को शामिल किया था। इस

सीरीज से पहले, शान मसूद ने कहा था कि पाकिस्तान ने टीम में खिलाड़ियों की संख्या सीमित करने का विकल्प चुना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक खिलाड़ी को सपोर्ट स्टाफ से उचित ध्यान मिले। हालांकि, इस कदम से पाकिस्तान के पास केवल तीन रिजर्व खिलाड़ी - मोहम्मद हुरैरा, सरफराज अहमद और मोह हजजा - रह गए हैं और अगर उन्हें चोटिल होने पर विकल्प की जरूरत पड़ती है तो उनके पास सीमित विकल्प हैं।

ग्लोबल सुपर लीग टी-20 का उद्घाटन संस्करण 26 नवंबर से



गुयाना। एक नए क्रिकेट टूर्नामेंट ग्लोबल सुपर लीग टी-20 का पहला संस्करण 26 नवंबर से 7 दिसंबर 2024 तक खेला जाएगा, जिसमें पांच अलग-अलग देशों की पांच टीमों में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की महत्वपूर्ण पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस आयोजन में गुयाना अमेजन वॉरियर्स और दुनिया भर की चार अन्य स्थापित टी20 टीमों में भाग लेंगे। आयोजकों ने सोमवार को उक्त जानकारी दी। यह दक्षिण अमेरिकी का पहला स्टैंडअलोन क्रिकेट आयोजन होगा और इसे क्रिकेट वेस्टइंडीज द्वारा मंजूरी दी गई है और गुयाना सरकार द्वारा इसका पूरा समर्थन किया जाता है, जो

इस टूर्नामेंट में एक प्रमुख हितधारक होगा। इस आयोजन में 11 मैचों की एक मिनी लीग होगी, जिसमें प्रत्येक टीम चार मैच खेलेगी और शीर्ष दो टीमों में फाइनल में पहुंचेंगी। सभी मैच प्रोविडेंस के गुयाना नेशनल स्टेडियम में होंगे, यह दुर्नामेंट सालाना आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर की अलग-अलग टीमों को हर सीजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। गुयाना के सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अली ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ग्लोबल सुपर लीग को गुयाना सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है क्योंकि हम एक विश्व स्तरीय खेल पर्यटन उत्पाद बना रहे हैं। क्रिकेट हमारे सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा है, यह एकता की

शक्ति है, हमारी विरासत का हिस्सा है और पर्यटन पर विशेष जोर देते हुए आर्थिक विविधीकरण में हमारे रणनीतिक उद्देश्य का अभिन्न अंग है। चूंकि गुयाना खुद को ऊर्जा, खाद्य और जलवायु परिदृश्य में एक वैश्विक आकार देने वाले के रूप में स्थापित करता है, इसलिए हम इस मंच का उपयोग अपने तटों पर एक विश्व स्तरीय टूर्नामेंट लाने के लिए करेंगे। ग्लोबल सुपर लीग के अध्यक्ष सर क्लाडव लायड ने कहा, मैं इस रोमांचक नए आयोजन में दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों का स्वागत करना चाहता हूँ। गुयाना में क्रिकेट के प्रति जुनून दुनिया भर के प्रशंसकों के जुनून से कहीं ज्यादा है, और हम खेल और अपने समृद्ध और जीवंत देश के प्रति

लीजेंड्स लीग के लिए श्रीनगर पहुंचे गेल, टेलर और रैना सहित कई दिग्गज

श्रीनगर। पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर यहां बुधवार को होने वाले लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) के मुकाबले के लिए श्रीनगर पहुंच गये हैं। लीग के अंतिम चरण के मैच यहां होने हैं। अधिकारियों ने कहा कि यहां पहुंचने वाले खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, क्रिस गेल, रॉस टेलर, इयान बटलर सहित 124 पूर्व अंतरराष्ट्रीय सितारे पहली बार यहां कोई मैच खेलेंगे। इसी को लेकर उत्साहित वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्रिस गेल ने अपने एक संदेश में कहा, 'हेलो श्रीनगर, यूनिवर्स बॉस शहर में है यूनिवर्स बॉस को देखने के लिए अपने टिकट बुक करें। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि बखशी स्टेडियम में क्रिकेट के इस अहम मुकाबले के लिए पूरे इंतजाम किये गये हैं। उन्होंने कहा कि यह कश्मीर को 40 साल में पहली बार स्टेडियम में आकर खेल देखने का अवसर मिलेगा। देखने का एक बड़ा अवसर है। इससे एक बार फिर यहां क्रिकेट की वापसी होगी। श्रीनगर में अब तक दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1983 और 1986 में खेले गये थे। इसके बाद घाटी के हालात खराब होने के कारण यहां मैच नहीं हो पाये। लीजेंड्स लीग एक टी20 क्रिकेट लीग है जिसमें हाल ही में संस्थापक दे चुके महान क्रिकेटर शामिल हैं। अपने प्यार का जशम मनाने के लिए उत्सुक हैं, जो व्यक्तित्व रूप से आने वाले और दुनिया भर से देखने वाले दोनों के साथ हैं। मैं डॉ. मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के लिए एक नए क्रिकेट आयोजन के उनके दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो दुनिया को आकर्षित करेगा।

सिगरेट से हुक्का ज्यादा खतरनाक...

इन दिनों हर छोटे बड़े शहरों और मॉल्स में हुक्का बार या शीशा लाउजिंग पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं। युवा हुक्के का एक कश नहीं बल्कि हजार कश लेते हुए दिखते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि हुक्का पीना सिगरेट पीने के मुकाबले बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता। लेकिन हुक्के से खींचा गया तंबाकू का धुआं पानी से होता हुआ एक लंबे होज पाइप के जरिए फेफड़ों तक पहुंचता है। पानी के बरतन से होते हुए आने के कारण ही यह एक आम भाँति है कि हुक्के का धुआं हानिकारक नहीं होता। सच यह है कि हुक्के से निकलने वाला धुआं

सिगरेट या बीड़ी के धुएँ से अधिक घातक होता है। हुक्का पीना सिगरेट की ही तरह हानिकारक है क्योंकि दोनों उत्पाद के अंत में कार्सिनोजन लगा रहता है जो कि एक कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है। हुक्के का स्वाद बदलने के लिए केवल उसमें फूट सीरप मिलाया जाता है जिससे उसके फ्लेवर में बदलाव आ जाता है। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हुक्के में किसी भी प्रकार का फल मिलाया गया हो। इसलिए यह आशा न करें कि हुक्के को पी कर आपको विटामिन मिलेगा।

सीने में जलन को ऐसे दूर करता है बेकिंग सोडा

एसिडिटी होने पर कई बार आपको भोजन नली या सीने में जलन की महसूस होती है। कभी-कभी ऐसा होता सामान्य बात है, लेकिन अगर आप लगातार इस तरह की जलन महसूस करते हैं तो यह एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। आपकी इस परेशानी का इलाज बेकिंग सोडा में छिपा है। खान-पान और सौंदर्य निखारने के लिए फायदेमंद बेकिंग सोडा आपकी इस परेशानी को दूर करने का बहुत कारगर उपाय है।



स्टैडिंग साइड क्रंच करने का सही तरीका



स्टैडिंग साइड क्रंच, ऑब्लिक मसलस को लक्षित करने वाली स्टैडिंग एब एक्सरसाइज है। इस एब एक्सरसाइज को अधिक प्रभावी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आप नियमित रूप से इस क्रंच को फर्श पर करें या अपने नियमित एब रूटीन में एक किस्म के रूप में जोड़ें। यह एक्सरसाइज आपको अधिक कैलोरी को जलाने, कोर स्ट्रेंथ को बनाने और आपके संतुलन में सुधार करने में मदद करती है। स्टैडिंग साइड क्रंच के अंतर्गत कई अन्य प्रकार की मसलस मूवमेंट भी शामिल होते हैं।

स्टैडिंग साइड क्रंच पीठ के निचले हिस्से और गर्दन की मसलस के लिए अच्छी तरह से काम करती है। इसमें गर्दन को स्ट्रेच करने या पीठ के बल लेटने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यह एब एक्सरसाइज के दौरान गर्दन में परेशानी या पीठ में दर्द अनुभव करने के कारण एक्सीमिनल एक्सरसाइज से बचने वाले लोगों के लिए बेहतर होती है। यह एक्सरसाइज डॉस, फाइट और अन्य एथलीटों के लिए आदर्श है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है जो फर्श पर आसानी से झुक और उठ नहीं सकते।

स्टैडिंग साइड क्रंच कैसे करें?

- स्टैडिंग साइड क्रंच को करने के लिए किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं होती।
- इसे करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और वजन को अपने बायें पैर पर डाल दें।
- अब अपनी दाहिने घुटने को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें।
- फिर अपने दायें पैर को शरीर के पीछे की तरफ उठाएं ताकि आपको घुटना समाने की ओर सीधा हो जाए।
- अब दोनों हाथों को सिर के पीछे लगा लें। सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी कोहनी को दाहिने घुटने के पास ले जाएं।
- फिर अपनी कोहनी और घुटने को इतना नजदीक ले जाने की कोशिश करें कि आपकी पसली और दाहिने कुल्हे पर प्रभाव महसूस हो।
- स्टैडिंग साइड क्रंच को 15-15 क्रंच में दोनों तरफ से करें।



स्टैडिंग साइड क्रंच के लाभ

- इससे गर्दन और पीठ के निचले हिस्से कम दबाव पड़ता है।
- मैट पर होने वाला यह साइड क्रंच अधिक कैलोरी जलता है।
- इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, इसे आप कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं।
- हाई इंटींसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। कार्यात्मक शरीर के विकास को बढ़ावा देता है।

टिप्स

- ऑब्लिक मसलस को अधिक एक्टिव करने के लिए स्लो और कंट्रोल मूवमेंट करें।
- इस एक्सरसाइज को कार्डियों के लिए उपयोग करने के लिए, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए तेजी से रेप करें।
- एक्सरसाइज करते समय, हिप्स को आगे या पीछे खिंच न करें।
- अपने सिर को हाथों के आगे या बगल से खींचने से बचें।
- रीढ़ की हड्डी को आगे झुकाने से बचें।



दवाओं के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए आसान तरीके

दवाएं कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया के खिलाफ मुकाबला करने, दर्द से राहत देने और जान बचाने में मदद करती हैं। दवाएं ऐसे रोगों का भी इलाज करती हैं जिनका अन्य किसी तरीके से इलाज नहीं हो पाता। लेकिन अफसोस, दवाओं के उपयोग में एक खामी भी है।

दवाएं मानव शरीर के साथ एक नाजुक संतुलन में काम करती हैं, लेकिन इस संतुलन के बिगड़ने पर यह कई प्रकार के साइड इफेक्ट का कारण बन सकती है।

साइड इफेक्ट

लगभग सभी प्रकार की दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को साइड इफेक्ट का पता नहीं लगता वह इन साइड इफेक्ट के साथ आसानी से झील कर लेते हैं। यहां ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई है जो आपको पता होनी चाहिए।

कैसे होते हैं साइड इफेक्ट

किसी को भी दवा से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक विशेष दवा आपके लिए



कब्ज

कई निर्धारित और काउंटर दवा से कब्ज की समस्या हो सकती है। नियमित रूप से पेनिकिलर दवाओं को लेने पर होने वाला यह सबसे आम दुष्प्रभावों में से एक है। हालांकि, आप ब्रान और होल वीट ग्रैन और हाई फाइबर सब्जियां और फल जैसे बींस, सेब और ब्रोकली के सेवन से इसका इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही तरल पदार्थों को खूब सेवन करें और नियमित रूप से

डायरिया

लगभग सभी दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में डायरिया की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं जैसे एंटीबायोटिक, एंटी-डिप्रेसेंट और एंटी-एड्स डायरिया का कारण बनती हैं। अगर आपको दवा से डायरिया की समस्या होती है तो अपने आहार में हल्के, फाइबर युक्त जैसे की चावल और दही को शामिल करें। और बेहतर महसूस होने तक मसालेदार और फैट से भरपूर खाद्य पदार्थों से बचें।

नींबू, ओलिव ऑयल और पानी

नींबू का रस चौथाई कप निकालकर उसमें उतना ही ओलिव ऑयल मिलाकर इसका सेवन करने के बाद पानी पीना चाहिए। दिन में 2 बार ऐसा करने से किडनी स्टोन से छुटकारा पाया जा सकता है। किडनी में स्टोन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिन में कम से कम 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से किडनी में से स्टोन यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है।

अनार और अजवाइन भी फायदेमंद

फलों का सेवन करना वैसे भी हमारी सेहत के लिए लाभकारी होता है, लेकिन स्टोन की समस्या होने पर अनार या अनार का जूस पीने से स्टोन से छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं अजवाइन का सेवन करने से पेट संबंधित कई रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन किडनी में स्टोन होने पर भी इसका सेवन कर सकते हैं।

घरेलू नुस्खों से मिल सकता है आराम

किडनी में पथरी या स्टोन के दर्द को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है, कोई भी व्यक्ति इस दर्द को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है इसलिए कई डॉक्टर दवाइयों देकर इसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर पथरी ज्यादा बड़ी हो तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप भी किडनी के स्टोन के दर्द से परेशान हैं तो कुछ घरेलू उपाय अपनाकर किडनी के स्टोन से राहत पा सकते हैं।

अब किडनी स्टोन के दर्द से मिलेगी राहत



कैल्शियम से भरपूर खाना

तुलसी के पत्तों का सेवन करने से किडनी के स्टोन से छुटकारा पाया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को चबाना, तुलसी की चाय बनकर पीना, तुलसी के रस में शहद मिलाकर पीने से स्टोन से राहत मिलती है। किडनी में स्टोन की समस्या से राहत पाने के लिए कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जो स्टोन को तोड़ने और बाहर निकालने में मदद करते हैं। दूध, मक्खन, तरबूज का सेवन करना लाभकारी साबित हो सकता है।

लहरों के बीच बना सकते हैं बेहतर भविष्य

आजकल के बच्चे काफी सोच समझकर अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन कई बच्चों को समुद्र की लहरों के बीच राफ्टिंग करना बेहद पसंद होता है अगर वो चाहें तो इस हॉबी को रोजगार का साधन भी बना सकते हैं, लेकिन इस कैरियर की शुरुआत सिर्फ साहसी लोग ही कर सकते हैं और इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है।




प्रमुख संस्थान...

- इंडियन मार्टिनियरिंग फाउंडेशन, नई दिल्ली
- हिमालयन रिवर रनर्स, नई दिल्ली

कैसे करें शुरुआत...?

राफ्टिंग का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कई संस्थानों द्वारा कराया जाता है। सबसे पहले प्राथी की शारीरिक जांच करने के बाद उसको राफ्टिंग गाइड के साथ खतरनाक राफ्टिंग ट्रैक पर भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान राफ्टिंग उपकरणों के प्रयोग करने के बारे में समझाया जाता है और साथ ही यह जानकारी भी दी जाती है कि नदी में पानी के बहाव, उसकी गहराई की कैसे जांच करनी है। राफ्टिंग का सारा प्रशिक्षण लेने के बाद आप राफ्टिंग गाइड भी बन सकते हैं और पर्यटकों को राफ्टिंग का सफर करावा सकते हैं। हालांकि ये कैरियर कमजोर दिलवालों के नहीं, बल्कि मजबूत इरादे वालों के लिए है। इसलिए ये कैरियर चुनते समय आप ये डिसाइज कर लें कि कहीं आपको पानी से डर तो नहीं लगता।

रेसिपी



विधि

मूंग को धोकर, उपयुक्त मात्रा के पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दें। छानकर, 11/2 कप पानी डालकर 2 सिटी के लिए प्रेशर कुक करें। दूधन खोलने से पूर्व सारी भाप निकलने दें। एक तरफ रख दें। दही, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को एक बाउल में मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। एक तरफ रख दें। एक नॉन-स्टिक कढ़ाई में तेल गरम करें और सरसों, कड़ी पत्ता, हींग और अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालें। जब बीज घटकने लगे, पका हुआ मूंग डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर 30 सेकंड तक पका दें। दही-बेसन का मिश्रण, नमक और 11/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और बीच में एक बार हिलाते हुए, मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लें। धनिया से सजाकर सादे चावल या रोटी के साथ गरमा गरम परोसें।

खट्टा मूंग

सामग्री

1 कप मूंग, 1 कप खट्टा दही, 1 टेबल-स्पून बेसन, 3/4 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल-स्पून तेल, 1 टी-स्पून सरसों, 3 से 4 कड़ी पत्ता, 1/4 टी-स्पून हींग, 1/2 टी-स्पून अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नमक स्वादानुसार

सजाने के लिए: 2 टेबल-स्पून कटा हुआ हरा धनिया परोसने के लिए: रोटी/सादे चावल



विधि

एक नॉन-स्टिक कढ़ाई में तेल गरम करिए और उसमें जीरा और उड़द डाल डालिए। जब जीरा चटकने लगे, तब उसमें प्याज डालिए और मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट भुनिए। उसमें लहसून की पेस्ट, धनिया-जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, टमाटर, नमक और 2 टेबल-स्पून पानी डालिए, अच्छे से मिलाइए और मध्यम आंच पर 2 मिनट, बिच-बिच में हिलाते हुए पकाइए। उसमें बनाया हुआ नारियल-काजू के पेस्ट, हरे मटर, धनिया और 1/2 कप पानी डालिए, अच्छे से मिलाइए और मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट, बिच-बिच में हिलाते हुए पकाइए। गरमा गरम परोसिए।

कोवालम मटर

सामग्री

1 1/4 कप उबले हुए हरे मटर, 1 टेबल-स्पून तेल, 1/2 टी-स्पून जीरा, 1 टी-स्पून उड़द दाल, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टी-स्पून लहसून की पेस्ट, 1 टी-स्पून धनिया-जीरा पाउडर, 1 टी-स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टी-स्पून हल्दी, 1/2 टी-स्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक, स्वाद अनुसार, 1 टेबल-स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पीस कर नारियल-काजू की मुलायम पेस्ट बनाने के लिए (थोड़े पानी का उपयोग करते हुए), 4 टेबल-स्पून कसा हुआ नारियल, 1 टेबल-स्पून टुकड़ा किया हुआ काजू